

## प्रेस नोट थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर दिनांक 10.09.2022

**पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से हमला करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार व कब्जे से 01 राशि गोवंश, पिकअप गाड़ी, सरिया, ईंट के टुकड़े व सीसे की बोटल बरामद**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कैण्ट के कुशल मार्गदर्शन में व प्रभारी निरीक्षक कल्याण सिंह थाना रामगढ़ताल के नेतृत्व में 30नि0 बबलू कुमार मय हमराही टीम के अपराधियों की धरपकड़ एवं अपराध की रोकथाम के क्रम में देखभाल क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिर द्वारा सूचना पर एक पिकअप गाड़ी पर कुछ गोवंश क्रूरता पूर्वक लादकर वध हेतु ट्रान्सपोर्ट नगर के रास्ते बिहार ले जाते समय अभियुक्तगण 1. सलमान खान पुत्र अजीज निवासी वार्ड नं0 1 अहरि पुरवा गजप्फर नगर थाना जंगीपुर जिला गाजीपुर 2. बबलू राजभर पुत्र फेकू राजभर निवासी ग्राम डुमरी एखरास थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया को गिरफ्तार किया गया तथा 04 अभियुक्त मौके से फरार हो गये। मौके पर थाना रामगढ़ताल पर मु0अ0सं0 472/2022 धारा 147,353,307 भादवि0 पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**घटना का संक्षिप्त विवरण-** मुखबीर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तेज रफ्तार से आ रही पिकअप को बैरियर लगाकर रोकने का प्रयास किये तो पिकअप चालक व उसपर सवार पांच अन्य व्यक्तियों द्वारा पुलिस वालों के ऊपर जान से मारने की नियत से ललकारते हुए चिल्लाने लगे की ये पुलिस वाले है इनके ऊपर गाड़ी चढा कर मार दो और हम पुलिस वालों को जान से मारने की नियत से पिकअप चढाने का प्रयास किये तथा आपस में ही तेज आवाज में बोले की इन पुलिस वालों को कुचल दो तभी ये मानेंगे और गाड़ी में रखे ईंट पत्थर व शीशी की बोटलों से फेंक कर पुलिस टीम पर मारने लगे जिससे का0 पवन कुमार को काफी गंभीर चोट आयी। मौके से पुलिस टीम द्वारा अपना बचाव करते हुए घेर कर दो अभियुक्तगण को पकड़ लिया गया एवं 04 अभियुक्त फरार हो गये। मौके से बरामद पिकअप में लदा एक राशि गोवंश को सही सलामत उतारा गया और पिकअप तथा उसमें लदा ईंट का टुकड़ा व सरिया तथा शीशी की बोटल को कब्जा पुलिस में लेकर मौके पर फर्द बरामदगी / गिरफ्तारी तैयार किया गया तथा अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

### अभियुक्तगण नाम पता व आपराधिक इतिहास-

1. सलमान खान पुत्र अजीज निवासी वार्ड नं0 1 अहरि पुरवा गजप्फर नगर थाना जंगीपुर जिला गांजीपुर
  - I. मु0अ0सं0 116//2011 धारा 3/5ए/8 गोबध निवारण अधि0 थाना भांवरकोल जनपद गाजीपुर
  - II. मु0अ0सं0 471/2022 धारा 379,323,325,307,352 भादवि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
  - III. मु0अ0सं0 407/2022 धारा 307,353,504,506 भादवि0 थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
  - IV. मु0अ0सं0 331/2022 धारा 3/5ए/8 गोबध अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
  - V. मु0अ0सं0 472/2022 धारा 147,353,307 भादवि0 थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर

2. बबलू राजभर पुत्र श्री फेकू राजभर निवासी ग्राम डुमरी एखरास थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया  
उम्र 38 वर्ष गोरखपुर
- I. मु0अ0सं0 471/2022 धारा 379,323,325,307,352 भादवि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना  
रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
- II. मु0अ0सं0 407/2022 धारा 307,353,504,506 भादवि0 थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
- III. मु0अ0सं0 331/2022 धारा 3/5ए/8 गोवध अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना रामगढ़ताल जनपद  
गोरखपुर
- IV. मु0अ0सं0 472/2022 धारा 147,353,307 भादवि0 थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर

### बरामदगी -

1. एक अदद राशि गोवंश
2. एक अदद पिकअप गाड़ी
3. दो अदद सरिया, 25 ईंट के टुकड़े व 10 सीसे की बोतल बरामद

### गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक कल्याण सिंह सागर थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 उ0नि0 बबलू कुमार चौकी प्रभारी आजाद चौक थाना रामगढ़ताल, गो0
3. उ0नि0 हरिप्रकाश यादव थाना रामगढ़ताल, गोरखपुर
4. का0 पवन कुमार थाना रामगढ़ताल, गोरखपुर
5. का0 सोनू थाना रामगढ़ताल, गोरखपुर
6. का0 विनीत सिंह थाना रामगढ़ताल, गोरखपुर
7. का0 मुन्ना कुमार यादव थाना रामगढ़ताल, गोरखपुर
8. का0 सुरेन्द्र वर्मा थाना रामगढ़ताल, गोरखपुर